



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 557 राँची, बुधवार

6 जून, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 मई, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प-1308, दिनांक 18 मई, 2005 एवं संकल्प सं०-2599, दिनांक 25 जून, 2006
2. W.P.(S) No. 4475/2008 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2018 को पारित न्यायादेश

संख्या-5/आरोप-1-710/2014 का.- 3280-- श्री संजीव शरण, (कोटि क्रमांक-354/03, गृह जिला-पूर्णिया), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के चुनाव आयोग के निर्देश एवं राजकीय आदेश का उल्लंघन कर विभागीय अधिसूचना सं०- 459, दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 का निर्धारित तिथि अथवा उसके तुरंत बाद अनुपालन नहीं करने, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करने, राजकीय आदेश का अनुपालन न कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का उल्लंघन करने, गलत तथ्य देकर माननीय उच्च

न्यायालय को दिग्भ्रमित करने, विभाग पर आरोप लगाने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-1308, दिनांक 18 मई, 2005 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०- 2599, दिनांक 25 मई, 2006 द्वारा श्री शरण के विरुद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया-

1. निन्दन,
2. तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों का संचयात्मक प्रभाव से रोक,
3. निन्दन की सजा की प्रविष्टि श्री शरण के चारित्री वर्ष 2004-05 में की जायेगी।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री शरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में वाद सं०- W.P.(S) No. 4475/2008 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं०-2599, दिनांक 25 मई, 2006 को निरस्त कर दिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं०- 2599, दिनांक 25 मई, 2006 को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव।
